

## प्रेस विज्ञप्ति

14 जून, 2020 गोरखपुर। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को पूरे विश्व में एक अभियान के रूप में चलाया जाता है। इस अवसर पर गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के ब्लड बैंक ने भी कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें बड़ी संख्या में स्वःरक्तदाता ने उत्साह और उल्लास के साथ सम्मिलित होकर रक्तदान के लिए अपने को समर्पित किये। ब्लड बैंक के प्रभारी डॉ अवधेश अग्रवाल जी ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन हर वर्ष एक थीम (उद्देश्य ) और एक स्लोगन (नारा) निर्धारित करता है। इस वर्ष का थीम है सुरक्षित रक्त द्वारा जीवन रक्षा । तथा नारा है रक्त देकर विश्व को स्वस्थ बनाएँ। यह दिवस रक्तकोष के तथा रक्तविज्ञान के जन्मदाता वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टाइनर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक आंकड़े के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 15 करोड़ रक्त यूनिट, भारत वर्ष में 1 करोड़ 50 लाख यूनिट तथा उत्तर प्रदेश में लगभग 22 लाख यूनिट रक्त की आवश्यकता पडती है। परन्तु स्थिती यह है की केवल 50 प्रतिशत ही इसकी आपूर्ति स्वरक्तदाताओं द्वारा हो पाती है, शेष रोगी जिन्हें रक्त की आवश्यकता होती है वे या तो व्यावसायिक रक्तदाता के चंगुल में फंस जाते हैं अथवा काल के गाल में समा जाते हैं। इस गंभीर समस्या के निवारण हेतु गोरखनाथ ब्लड बैंक जनमानस से अपील करता है कि नियमानुसार हर तीन माह बाद रक्तदान किया जा सकता है। इस बात को समझते हुए यदि तीन माह में नही तो वर्ष में एक बार किसी भी रक्तकोष में जाकर रक्तदान करें । सुझाव है कि अपने जन्मदिन पर रक्तदान करके अपने पवित्र और अमूल्य जीवन को स्मरणीय बना दे।

अभी जो वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है तथा लाँक डाउन की स्थिती बनी थी इस अंतराल मे रक्तदाता ब्लड बैंक नही पहुंच पा रहा था, परिणाम स्वरुप रक्तकोषों में रक्त की भारी कमी देखी गई। ईश्वरीय कृपा ही है कि गोरखनाथ ब्लड बैंक इस त्रासदी के काल में भी अनवरत रक्त की आपूर्ति करता रहा था। अपनी ख्याति के अनुकूल रक्तदाताओं के विश्वास का केंद्र बना रहा। रक्त की कमी न हो तथा रक्तदाताओं को उत्साहित करने के कार्यों में कुछ

रक्त विनियामक संस्थाएँ जैसे रेडक्रास , विश्व स्वास्थ्य संगठन युनेस्को, इत्यादि बढ - चढ कर एक मुहिम के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर बढ रहीं हैं।

आज इस अवसर पर लगभग 25 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया जिसमें प्रमुख डा० श्यामबाबू गुप्ता, नन्दलाल गुप्ता, सोनू यादव, गायत्री साहनी, देवेश पाण्डेय इत्यादि रक्तदाताओं ने रक्तदान किया । सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र, ट्राफी तथा कुछ भेंट स्वरुप सम्मान दिये गए। रक्तदाताओं के धन्यवाद ज्ञापन का कार्य ब्लड बैंक अधिकारी डा० ममता जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में अपर निदेशक डा० कामेश्वर सिंह, डा० देवी प्रसाद, डा० मधुसूदन सिंह, डा० राकेश तिवारी, देवेश पाण्डेय, अनूप पाठक, गुरुद्वारा से जशपाल सिंह, जगनैन सिंह नीटू सहित टेक्निशियन अमित मिश्रा, राजीव तिवारी, चन्द्रेश्वर यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सामाजिक दूरी, हैण्ड सैनिटाइजेशन, तथा मास्क इत्यादि का पूरा ध्यान दिया गया।



